



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 पौष 1936 (श0)  
(सं0 पटना 41) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(पू0)-01-09/2009/1886—श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, के द्वारा सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज की एक निविदा सं0-01/2008-09 के ग्रुप सं0-25 के निविदा निष्पादन में बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1204 दिनांक 20.08.10 विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री राजेश्वर दयाल, अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

सेचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 759 दिनांक 10.07.2012 द्वारा श्री राम प्रसाद राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री राम प्रसाद राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई, समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक संवेदक को लाभ पहुँचाने हेतु कार्रवाई की गई, परन्तु सफलीभूत नहीं होने पर निविदा रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का आदेश दिया गया जबकि नियमानुसार कार्रवाई की जाती तो निविदा रद्द करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए श्री राम प्रसाद राम दोषी पाये गये हैं।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, पूर्णियों के विरुद्ध निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

1. "पॉच (5%) प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक"।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1819 दिनांक 05.11.2014 द्वारा सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ, सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:-

“पाँच (5%) प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा,

सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>